

PUNJAB NATIONAL BANK

(Periodicity of submission of stock statement: Forth nightly/monthly/quarterly/half yearly)

જોડ Total

पीएनबी PNB – 938-133/2012 IOP संसोधित/ revised (8/2009)

भाग बी PART-B

विविध देनदार (प्राप्य राशियों) @ Sundry Debtors (Receivables) @

क्रम सं S.No.	अनुबंध \$ अनुसार देनदारों की सूची List of Debtors as per Annexure \$	राशि (रु.) Amount (Rs.)
i	90 दिन तक Upto 90 days	
ii	>90 दिन से 180 दिन > 90 days to 180 days	
iii	> 180 दिन > 180 days	
जोड़ Total		

@ स्वीकृति की शर्तों के अनुसार स्वीकार्य विविध देनदार

@ Sundry debtors acceptable as per terms of sanction

\$ I, ii और iii के लिए अलग अनुबंध संगलन किया जाना है

\$ Separate Annexure for I, ii and iii to be enclosed

वित्तीय वर्ष में बिक्री

Sales During the financial year

- | | | |
|----|----------------------|-------------------------|
| 1. | पिछले माह तक बिक्री | Sales upto last month |
| 2. | माह के दौरान बिक्री* | Sales during the month* |
| 3. | कुल बिक्री | Total Sales |

भाग-सी PART – C

विविध लेनदार Sundry Creditors

	राशि (रु.) Amount (Rs.)
अनुबंध अनुसार लेनदारी की सूची# List of Creditors as per Annexure#	

अनुबंध अनुसार लेनदारी की सूची संगलन की जानी है

#List of Creditors as per Annexure to be enclosed

वित्तीय वर्ष के दौरान खरीद

Purchase during the Financial Year

- | | | |
|----|---------------------------|----------------------------|
| 1. | पिछले माह तक खरीद | Purchase upto last month |
| 2. | माह के दौरान बिक्री खरीद* | Purchase during the month* |
| 3. | कुल खरीद | Total Purchase |

* नोट स्वीकृति की शर्तों के अनुसार स्टॉक विवरण प्रस्तुत करने की अवधि (पासिक/मासिक/तिमाही/अर्द्धवार्षिक)

*Note: As per periodically of submission of stock statement in terms of sanction
(forth nightly/monthly/quarterly/half yearly)

(आवश्यकता होने पर अतिरिक्त पन्ने का प्रयोग किया जाए) (Extra Sheet to be attached in case of Need)

1. मैं/ हम घोषणा एवं अभिसूचित करता हूँ/करते हैं कि ऊपरलिखित सारा माल बैंक के पास दृष्टिबंधक रखा हुआ है तथा वह मेरी/हमारी निजी संपत्ति है कि और मैं/हम बैंक के पास दृष्टिबंधक रखने का/कि हकदार हूँ/हैं, वे भाररहित है तथा उन पर किसी भी प्रकार का कोई अन्य पुनर्ग्रहणाधिकार दावा अथवा प्रभार नहीं है।
I/We declare and acknowledge that all the goods noted above stand hypothecated to the bank and the same are my /our own property and that I/We am/are entitled to hypothecate them with the bank. They are unencumbered and are subject to any other lien, claim or charge of any sort.
2. मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि उक्त स्टॉकों कि गुणवत्ता तथा मात्रा सही है तथा हमारे रिकॉर्ड में कि प्रविष्टियों के अनुरूप हैं दिखाए गये स्टॉकों में सतिगृहस्त/अतिक्रिये/अप्रयुक्त/पुराना माल शामिल नहीं हैं।
I/We certify that the quality and quantity of the stocks are correct and in accordance with the entries in our record. The stocks shown do not include damage un-saleable/obsolete/old goods.
3. मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि स्टॉक का मुल्यांकन आईसीएआई द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखापद्धति मानक (एएस-2) के अनुसार (अर्थात् लागत मूल्य/निलय प्राप्य दर जो, भी कम हो) किया गया है।
I/We certify that the valuation of stocks has been made as per mandatory Accounting Standard (AS-2) (i.e. cost price/Net Realizable Rate, whichever is lower) as prescribed by ICAI.
4. मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त माल का आग तथा अन्य आवश्यक जोखिमों के विरुद्ध पर्याप्त रूप से बीमा करवा लिया गया है बीमा पॉलिसियों पर समस्त प्रीमियम राशि अदा कर दी गई है तथा ये पॉलिसियां लागू हैं।
I/We certify that the above goods are adequately covered by insurance against fire and other necessary risks in terms of sanction. All premiums on Insurance policies have been paid and these are in force.
5. मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि हमारे रिकॉर्ड की प्रविष्टियों के अनुसार विविध देनदारों विविध लेनदारों तथा विक्रय क्रय राशि सही हैं।
I/We certify that the amount of sundry debtors/sundry creditors and Sales/Purchase are correct and in accordance with the entries in our record.
6. यदि उपर्युक्त में कोई गलत बयानी जो (जिसका कि बैंक एकमात्र निर्णायक हैं) अथवा प्रतिभूति की कोई कमी हो तो मैं/हम कानूनी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होऊंगा/होंगे।
In case the above contain any mis-statement (of which the bank is the sole judge) or there be any shortage of security. I/We shall render myself/ourselves liable to legal action.

ऋणकर्ता/ऋणकर्ता का प्राधिकृत हस्ताक्षरी
BORROWER/AUTHORISED SIGNATORY

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए
FOR OFFICE USE ONLY

1. ऋण सीमा Limit.....
2. प्रतिभूति का मूल्य (माल के मूल्य में से अतिरिक्त विविध लेनदार जिसका निर्णय स्वीकृति की शर्तों के अनुसार लिया जाना है, घटाएँ, यदि कोई हो) Value of security (Value of stock minus surplus, sundry creditors, if any, to be deducted in terms of sanction).....
3. मार्जिन स्वीकृति के अनुसार Margin (as per sanction).....
4. आहरण शक्ति (ऊपर 2 अनुसार प्रतिभूति के मूल्य में से मार्जिन को घटाएँ) Drawing power (value of security as per (2) above less margin)
(स्वीकृति लिमिट अथवा आहरण शक्ति, जो की कम हो, ली जानी हो)
(Sanctioned Limit or Drawing power whichever is less to be taken)

5. एसआरएम कब अपडेट किया गया SRM updated on

--	--	--

 प्रविष्टि किसने की नाम Entered by (Name)

सत्यापित किसने किया नाम Verified by (Name)	
---	--

6. निरीक्षण कब किया Inspected on

--	--	--

 किसके द्वारा नाम by (Name)

पदनाम Designation

(हस्ताक्षर Signature) _____